



# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 16 राँची, बुधवार 18 वैशाख, 1941 (श०)  
8 मई, 2019 (ई०)

#### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

**भाग 1**—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 239-246

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

**भाग 1-क**—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

**भाग 1-ख**—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

**भाग 1-ग**—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

**भाग 3**—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

**भाग-4**—झारखण्ड अधिनियम

**भाग-5**—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

**भाग-7**—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

**भाग-8**— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

**भाग-9**— विज्ञापन ---

**भाग-9-क**—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

**भाग-9-ख**—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

## भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

-----  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
अधिसूचना

26 अप्रैल, 2019

संख्या-1/विविध-821/2017 का.-3368-- श्री दिलीप कुमार झा, भा.प्र.से. (झा:2004), परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा उपभोग हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11, 12, 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 08.05.2019 से 17.05.2019 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं 18.05.2019 से 19.05.2019 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग करने की अनुमति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**-----  
**अधिसूचना****15 अप्रैल, 2019 ई०।**

**संख्या- 13/एम०2-1068/2013- 2015 /सी०,--** श्री अम्बर लकड़ा, भा०पु०से०, समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के लोक सभा आम चुनाव-2019 में चुनाव प्रेक्षक के रूप में कार्य करने के कारण उनके कार्यालय से अनुपस्थिति अवधि में **श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भा०पु०से० (2010),** पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----  
अधिसूचना

16 अप्रैल, 2019 ई०।

**संख्या-13/एल०-103/2017- 2045 --** श्रीमती निधि द्विवेदी, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-01.06.2019 से 10.06.2019 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त अवधि में श्रीमती द्विवेदी, भा०पु०से० को निजी खर्च पर आइसलैंड (Iceland) निदरलैंड (Netherland), फ्रांस (France) तथा स्वीडन (Sweden) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्रीमती द्विवेदी, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**इग्नातियुस कुल्लू,**  
सरकार के उप सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**-----  
अधिसूचना

16 अप्रैल, 2019 ई०।

**संख्या-13/एल०-103/2017- 2046 --** श्री पियूष पाण्डेय, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, नगर धनबाद को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-01.06.2019 से 10.06.2019 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त अवधि में श्री पाण्डेय, भा०पु०से० को निजी खर्च पर आइसलैंड (Iceland) निदरलैंड (Netherland), फ्रांस (France) तथा स्वीडन (Sweden) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री पाण्डेय, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**इग्नातियुस कुल्लू,**  
सरकार के उप सचिव।

-----

**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।**

-----  
अधिसूचना

18 अप्रैल, 2019 ई०।

**संख्या-12/पी०-8005/2014- 2068--** पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री परमेश्वर प्रसाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**संख्या-12/पी०-80056/2014- 2069--** पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय, राँची में योगदान करने का निदेश दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----  
अधिसूचना

28 फरवरी, 2019 ई०।

**संख्या-10/विविध-1005-A/2018- 1166** -- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प **संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012** (प्रति संलग्न) द्वारा लिया गया था।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा उक्त संकल्प के अनुरूप, विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों को जिलावार चिन्हित कर राज्य सरकार को **अष्ठम संपुष्ट सूची पत्रांक-2550, दिनांक 27.12.2018** द्वारा समर्पित किया गया।

3. आयोग के उक्त प्रतिवेदनों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार संलग्न सूची के अनुसार **कुल-229** चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अन्तर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/उनके अधिसूचित आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. यह दिनांक-01.08.2015 से प्रभावी होगा।

**अनु०-यथोक्त।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**इग्नातियस कुल्लू,**  
सरकार के उप सचिव।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----  
अधिसूचना  
02 मई, 2019 ई०।

संख्या-13/ओ०-105/2018- 2288 /सी०,-- श्रीमती वन्दिता राणा, परीक्ष्यमान भा०पु०से० (झारखण्ड: 2017) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-I-11014/01/2018-IPS.IV, दिनांक-01.03.2019 के आलोक में विवाह के आधार पर झारखण्ड से राजस्थान संवर्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप राजस्थान संवर्ग में योगदान देने हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।